



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1935 (श0)
(सं0 पटना 811) पटना, बृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2013

सं0 वि0(27)पे0को0-78/2005--1441-वि0
वित्त विभाग

संकल्प

10 अक्टूबर 2013

विषय:—कर्त्तव्य अवधि में सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

1. भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के अपने पत्रांक-एफ0नं0-38/37/08-P\$PW (A) दिनांक 02.9.2008 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के परिवारों के लिये कर्त्तव्य अवधि में नियमित कर्त्तव्य (Bonafide Official duty) निर्वहन के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को निम्न वर्णित स्थितियों के अनुरूप अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है :-

(क)	कर्त्तव्य अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर	10 लाख
(ख)	कर्त्तव्य अवधि के दौरान उग्रवादी, असामाजिक तत्वों एवं अन्य अव्यष्टित तत्वों के द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर	10 लाख
(ग)	दुश्मन की गतिविधि के चलते अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई अथवा सीमा पर झड़प के कारण, आतंकवादी गतिविधि व कारण मृत्यु होने पर	15 लाख
(घ)	कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान अत्यधिक उँचाई पर(High altitude),दुर्गम (Inaccessible) सीमा पर, प्राकृतिक आपदा अथवा चरम मौसम की स्थिति (Extreme weather condition) से मृत्यु होने पर	15 लाख

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2411 दिनांक 12.11.05 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों के कर्त्तव्य के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनके आश्रित को 10 (दस) लाख रुपये अनुग्रह-अनुदान देने का प्रावधान है । कर्त्तव्य अवधि में सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन

(Active performance of duty) के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर अनुग्रह-अनुदान का प्रावधान बिहार सरकार के उक्त संदर्भित संकल्प में नहीं है।

3. राज्य सरकार के अधीन कई दायित्व ऐसे हैं जिनसे जुड़े सरकारी सेवकों के सक्रिय कर्तव्य निर्वहन (Active official duty) के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है और कई बार दुर्घटना के कारण मृत्यु भी हो जाती है।

उदाहरण स्वरूप प्राकृतिक आपदा में लोगों की जान-माल की रक्षा एवम् राहत पहुँचाने के क्रम में, अग्निशामक कर्मियों द्वारा अग्निशमन के दौरान लोगों की जान-माल बचाने के क्रम में कर्तव्य निर्वहन के समय इमारत ढहने (Building Collapse), जहरीली गैस (Toxic gas) से दम घुटने, विद्युत करंट/यांत्रिक चोट लगने (Electric/Mechanical injury) जैसी दुर्घटना से मृत्यु होना Active performance of official duty के निर्वहन के दौरान हुई मृत्यु की परिधि में आयेगा। सामान्य तौर पर कार्यालय में या कर्तव्य स्थल से आने-जाने के क्रम में हुई दुर्घटना अथवा हृदयाघात या ब्रेन हेमरेज या अन्य किसी बीमारी के कारण कर्तव्य अवधि में मृत्यु होना Active performance of official duty के निर्वहन के क्रम में हुई मृत्यु की परिधि में नहीं आयेगा।

4. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी सेवकों की उपर्युक्त कंडिका-(3) के सदृश मामलों में सक्रिय कर्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 10 (दस) लाख रुपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाएगी बशर्ते कि दुर्घटना सक्रिय कर्तव्य निर्वहन (Active performance of duty) से कार्य-कारण के रूप में (Causal Connection) जुड़ी हो।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 811-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>